

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 13 अगस्त 2022

प्रश्न -1

11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर किस मंत्रालय ने राशन कार्ड के लिए वेब-आधारित "सामान्य पंजीकरण सुविधा" शुरू की?

- A) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- B) गृह मंत्रालय
- C) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- D) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

सही उत्तर: D

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक सामान्य पंजीकरण सुविधा शुरू की।

प्रश्न -2

उपग्रह-आधारित संचार नेटवर्क के लचीलेपन का परीक्षण करने के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया था?

- A) युद्ध अभ्यास
- B) स्काईसैट
- C) शक्ति
- D) स्काईलाइट

सही उत्तर: D

भारतीय सेना ने भविष्य में संघर्ष की स्थिति में परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए अपने पूरे उपग्रह-आधारित संचार नेटवर्क का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए 'स्काईलाइट' अभ्यास का आयोजन किया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 13 अगस्त 2022

प्रश्न -3

निम्नलिखित में से कौन सा शहर गूगल से एनवायरमेंट इनसाइट्स एक्सप्लोरर (EIE) डेटा आधिकारिक तौर पर जारी करने वाला भारत का पहला शहर है?

- A) नोएडा, उत्तर प्रदेश
- B) बेंगलुरु, कर्नाटक
- C) औरंगाबाद, महाराष्ट्र
- D) अहमदाबाद, गुजरात

सही उत्तर: C

औरंगाबाद गूगल से "एनवायरमेंट इनसाइट्स एक्सप्लोरर (EIE)" डेटा प्रकाशित करने वाला पहला शहर बन गया है।

प्रश्न -4

समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए?

- A) IIM लखनऊ
- B) IIM इंदौर
- C) IIM बेंगलोर
- D) IIM कोझीकोड

सही उत्तर: D

भारतीय प्रबंधन संस्थान, IIM कोझीकोड और कोचीन शिपयार्ड ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 13 अगस्त 2022

प्रश्न -5

निम्नलिखित में से किस लघु वित्त बैंक ने इंद्रजीत कैमोत्रा को अपना MD और CEO नियुक्त किया है?

- A) यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक
- B) शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक
- C) इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
- D) कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक

सही उत्तर: A

यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (USFB) ने इंद्रजीत कैमोत्रा को अपना प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है।

प्रश्न -6

हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया?

- A) 05 अगस्त
- B) 06 अगस्त
- C) 07 अगस्त
- D) 08 अगस्त

सही उत्तर: B

हिरोशिमा दिवस द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में USA द्वारा 1945 में जापान के हिरोशिमा में परमाणु बमबारी की याद में 6 अगस्त को मनाया जाता है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 13 अगस्त 2022

प्रश्न -7

भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया?

- A) 08 अगस्त
- B) 07 अगस्त
- C) 06 अगस्त
- D) 05 अगस्त

सही उत्तर: B

सामाजिक-आर्थिक विकास में हथकरघा उद्योग के योगदान को उजागर करने के लिए हर साल 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच अकासा एयर एयरलाइन ने अपनी पहली उड़ान संचालित की है?

- A) मुंबई से अहमदाबाद
- B) जबलपुर से दिल्ली
- C) चेन्नई से मुंबई
- D) अहमदाबाद से लखनऊ

सही उत्तर: A

भारत की सबसे नई एयरलाइन अकासा एयर ने मुंबई से अहमदाबाद के लिए अपनी पहली उड़ान संचालित की है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 13 अगस्त 2022

प्रश्न -9

निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 'बढ़े चलो' अभियान शुरू किया गया था?

- A) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- B) गृह मंत्रालय
- C) विदेश मंत्रालय
- D) संस्कृति मंत्रालय

सही उत्तर: D

युवाओं में देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करने के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 'बढ़े चलो' आंदोलन शुरू किया है।

प्रश्न -10

भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच, सैन्य अभ्यास 'युद्ध अभ्यास' आयोजित किया गया था?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) फ्रांस
- C) जापान
- D) USA

सही उत्तर: D

युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा चल रहा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयास है।